


DOWN SYNDROME

Smart Global Exim's DMIT

डाउन सिंड्रोम



जैसा कि हमने पहले बताया था कि फिगरप्रिंट गर्भ अवधिके 13 वें सप्ताह से विकास करना शुरू करते हैं और इसी अवधि में जब मस्तिष्क भी विकास शील हो जाती है। उंगलियों के निशान और मस्तिष्क का विकास एक साथ होता है और उनके बीच उनके प्रत्यक्ष सह-संबंध होते हैं। विज्ञान ने सिद्ध किया है कि जिस बच्चे का मस्तिष्क विकसित नहीं हुआ है, उसके उंगलियों के निशान भी अविकसित पाए जाते हैं, इस रोग को डाउनसिंड्रोम कहा जाता है और यह प्रकृति में जन्मजात है। डाउनसिंड्रोम के मरीज 100% मानसिक रूप से मंद होते हैं और उनके फिगर प्रिंट भी अविकसित होते हैं।

उनके एटीडी कोण भी 55 डिग्री से अधिक मिले हैं।

आनुवांशिक बीमारी जो पहली बार देखी गई थी, क्योंकि कई डर्माटोग्लिफिक्स की अजीबताएं डाउनसिंड्रोम थीं। डाउनसिंड्रोम के गुणसूत्र के आधार पर स्थापित होने से पहले, 1939 में, कमिसने सामान्य आबादी की तुलना में डाउनसिंड्रोम के रोगियों में त्वचा विज्ञान के लक्षणों में अंतर दिखाया। कई जांचकर्ताओं द्वारा गुणसूत्रिक अपवादों के साथ असामान्य रिज पैटर्न का सहयोग किया गया है।

Cont: (+91)-7339123552 Web: www.dmittraining360.com Email: training360deg@gmail.com

DOWN SYNDROME

Smart Global Exim's DMIT

ए.टी.डी.कोण और सीखने की संवेदनशीलता

एटीडी बाएं	आपका एटीडी कोण है	एटीडी दाहिने
43	42	41

मस्तिष्क मुख्यतः न्यूरॉन्स से बना है एकत्रित त्रिका कोशिका का अन्य न्यूरॉन्स या संवेदी अंगों से संकेत प्राप्त करती है, इन संकेतों को संसाधित करती है, और अन्य न्यूरॉन्स, मांस पेशियों या शारीरिक अंगों को संकेत भेजती है। ए.टी.डी कोण नर्वसपेशी प्रणालियों के बीच समन्वय की डिब्बी और गति को प्रतिबिम्बित करती है, जो कि किसी की दक्षता को दर्शाती है। ए.टी.डी.कोण एक डर्माटोग्लैफिक विशेषता है, जो पहले और आखिरी अंगों के नीचे त्रिभुज और हथेली के हाइपोथेथेनिया क्षेत्र पर सबसे समी पस्थत्रिरैरियस के बीच रेखा खींच कर बनाई गई है।

एटीडी कोण < 35 डिब्बी आप जन्मे खिलाड़ी हैं आप अपने पसंदी दाखेल में बहुत अच्छी तरह से करेंगे आपकी आँखों की गति और हाथ समन्वय उत्कृष्ट है आपके पास तेज अवलोकन कौशल और दक्षकाम करने की क्षमता है। आप अपने व्यक्तिगत शिक्षण और विकास में स्मार्ट और सक्रिय हैं। वास्तव में कठिन चीजों के लिए, यहां तक कि एक छोटा सुराग आपको लक्ष्य तक ले जा सकता है। आप उत्कृष्ट ठीक और सकल मोटर कौशल के साथ ऊर्जा से भर रहे हुए हैं। आपकी दर्द लेने की क्षमता दूसरों की तुलना में कहीं अधिक है, जो आपके अंदर "कभीहारनदे" रवैया बनाता है।

एटीडी एंगल 35-40 अनुच्छेद यह स्मार्ट लोगों के बीच में है। आप अपने व्यक्तिगत शिक्षा में अच्छे हैं और खेल को एक शौक के रूप में ले सकते हैं और इसे विकसित कर सकते हैं। आप कार्य करने की क्षमता, अवलोकन कौशल, आख में कई अन्य लोगों की तुलना में बहुत बेहतर हैं हाथ समन्वय आदि करने के लिए। हालांकि, खेल को कैरियर के रूप में लेना आपके लिए चुनौती पूर्ण होगा, लेकिन आपके शारीरिक आंदोलन आम लोगों की तुलना में बेहतर हैं और आप स्वास्थ्य संबंधी व्यक्ति हैं।

एटीडी कोण 41-45 डिब्बी यह सामान्य लोगों की एक सीमा के भीतर है अधिकांश लोग इस श्रेणी में आते हैं। आप अपने निजी सीखने में सामान्य हैं, आम तौर पर खेल के लिए भावुक नहीं हैं, खेल रहे हैं। यदि आप अपने स्वास्थ्य और वजन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो संभावना है कि आप समय की अवधि में वजन बढ़ा सकते हैं, खासकर 45 वर्ष की आयु के बाद। आप अपनी क्षमता, अवलोकन कौशल और सीखने में भीड़ के ऊपर प्रदर्शन करेंगे लेकिन कड़ी मेहनत उत्कृष्टता के लिए आवश्यक है।

एटीडी कोण 46 डिब्बी और ऊपर इस प्रदर्शन में औसत से कम है। इस श्रेणी में एटीडी वाले लोगों को चरण सीखने के तरीकों से कदम की आवश्यकता होती है। वे कार्य करने या चीजों का पालन करने के लिए अपना समय लेते हैं। उन्हें पढ़ाने के दौरान हमें दोहराई जाने की जरूरत है। उन्हें एक समय में कई निर्देशों को समझना मुश्किल लगता है और वे तेजी से भाषण या निर्देशों से बचते हैं। खेल उनके लिए मतलब नहीं है, वे आम तौर पर ना पसंद व्यायाम, सुबह वॉक या योग।

Cont: (+91)-7339123552 Web: www.dmittraining360.com Email: training360deg@gmail.com